

## MODEL QUESTIONS

for

Intermediate Vocational Exam – 2018

Of

**FOOD RESERVATION & PROCESSING TRADE**

इन्टरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा - 2018

परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें :-

**Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable:-**

**Time:- 3 Hours 15 Minutes**

**Full Marks :- 100**

समय :- 3 घंटे 15 मिनट

पूर्णांक :- 100

**Instructions : There are three section of questions paper :**

- Section A contains 50 questions, Each question is multiple choice type having 1 mark each. Total Marks 50
- Section B contains 22 questions, Each question is short answer type having 2 marks each. Students are instructed to answer any 15 questions out of total 22. Total Marks 30.
- C contains only 4 questions with substitute. Each question is long answer type having 5 marks each. Total marks 20.

अनुदेश :- प्रश्न पत्र के तीन खण्ड हैं।

- खण्ड अ :- कुल 50 अंकों के वस्तु निष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इनके चार उत्तर हैं। सही उत्तर का चयन विकल्पों से करें। कुल प्रश्नों की संख्या 1 से 50 तक है। कुल अंक :- 50
- खण्ड ब :- इस खण्ड में कुल 22 प्रश्न हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों के लघुस्तरीय उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। कुल अंक :- 30
- खण्ड स :- कुल प्रश्नों की संख्या 4 है और प्रत्येक में अथवा का विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न दीर्घ स्तरीय उत्तर के हैं और उनके प्रश्नों के मान 5 अंकों के हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। कुल अंक :- 20

खण्ड - अ

**Group - A**

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

**(Objective type Questions)**

1. स्वस्थ रहने के लिये एक व्यस्क पुरुष को कितने मि०ग्रा० विटामिन "C" की आवश्यकता होती है।  
a. 30ml                                  b. 35ml                                  c. 40ml                                  d. 50ml
2. प्रोटीन की कमी के कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं।  
a. भूख न लगना                                  b. शारीरिक वृद्धि का रुकना  
c. कमजोरी महसूस होना                                  d. थकान महसूस करना
3. स्वस्थ रहने के लिये प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितने मात्रा में फल लेना चाहिये।  
a. 57ग्राम                                  b. 211ग्राम                                  c. 76ग्राम                                  d. 42ग्राम
4. भारी कार्य करने वाले पुरुष के लिये आवश्यक कैलोरी उर्जा  
a. 2000                                  b. 3900                                  c. 4000                                  d. 5000

